

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 14— जून 20, 2014 (ज्येष्ठ 24, 1936)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 14—JUNE 20, 2014 (JYAISTHA 24, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 30 मई 2014

सं. ए. 38013/01/2014-प्रशासन-II--संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में कार्यरत श्री सुशील कुमार II, अधीक्षक (डी. पी.) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31/05/2014 (31 मई 2014) के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

सुरेश कुमार नायक

अवर सचिव (प्रशासन-2)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 मई 2014

सं. डीपीपर्स.I/2014/0060/3/95/2014--राष्ट्रपति, श्रीमती अर्चना रामासुन्दरम, भा.पु.सेवा (टीएन : 1980) को दिनांक 08.05.2014 के पूर्वाह्न से 4 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अपर निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दीपिका सूरी

उप-निदेशक (कार्मिक)

दिनांक 20 मई 2014

सं. डीपीपर्स.1/2014/0061/3/150/2011--श्री सुवेन्द्र कुमार भगत, भा.पु.सेवा (उत्तरप्रदेश : 1998), पुलिस उपमहानिरीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाएं उनके समयपूर्व प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप दिनांक 24.03.2014 के अपराहन से उत्तरप्रदेश सरकार को वापस सौंपी जाती हैं।

दीपिका सूरी
उप निदेशक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 अप्रैल 2014

संख्या : ओ.दो-3672/2014-कार्मिक-डी.ए.-1--भारत सरकार ने श्री किशोर झा, भा0पु0से0 (एम0टी0 : 82) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति आधार पर रु. 67,000--79,000/- के एच.ए.जी. वेतन स्केल में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 31/01/2018 (अधिवर्षिता की तिथि) की अवधि तक या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, उक्त अधिकारी ने अपर पुलिस महानिदेशक, के.रि.पु.बल. का कार्यभार दिनांक 28/04/2014 (पूर्वाहन) को ग्रहण कर लिया है।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 26 मई 2014

संख्या-ओ.दो. 3796/08-कार्मिक (चि0अ0)--इस महानिदेशालय के समसंख्यक नोटिस दिनांक 11.04.2014 के तहत डा0 पवन सिंह, चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) (ईरला सं0-7720), ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल मोकामाघाट को, सेवा समाप्त करने संबंधी एक माह का नोटिस, दिनांक 22.04.2014 को सुपुर्द किए जाने के उपरांत एक माह का समय पूर्ण होने के फलस्वरूप दिनांक 21.05.2014 (अपराहन) से उनकी सेवाएँ समाप्त हो गई हैं। तदनुसार, उन्हें उसी तिथि अर्थात् दिनांक 21.05.2014 (अपराहन) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 28 मई 2014

संख्या-ओ.दो. 3974/2014-कार्मिक (चि0अ0)--राष्ट्रपति जी डॉ0 सौम्या सिंह को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5,400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 23.05.2014 (पूर्वाहन), अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 अप्रैल 2014

सं. ई-16013/एस. के.-भा.पु.से./2014/कार्मिक-2/573--राष्ट्रपति, श्री एस. एस. देव दत्ता सिंह, भा.पु.से. (ओडिसा : 1998) को दिनांक 28.04.2014 (पूर्वाहन) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उप महानिरीक्षक पद के वेतनमान बैंड-4 रु. 37,400-67,000/- ग्रेड वेतन रु. 8,900/- में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते हैं।

डी. श्यामला
सहायक उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-85, दिनांक 22 मई 2014

संदर्भ:पीडी/11(1)/2013-भर्ती-III/2014/5860--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री विनोद प्रसाद रविदत्त शर्मा, सहायक सुरक्षा अधिकारी (ए), को दिनांक 08.05.2013 (पूर्वाहन) से 05.05.2014 (अपराहन) तक रुपए 9,300-34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रुपए 4800/- में इस अनुसंधान केंद्र में तदर्थ आधार पर सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

मृत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

दिनांक 23 मई 2014

सं. पीडी/6(5)/2013-भर्ती-III/2014/5914--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री काला सिंह, सहायक, पऊवि, मुंबई को दिनांक 13.05.2014 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इस अनुसंधान केंद्र में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मृत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

मुंबई-400085, दिनांक 23 मई 2014

संदर्भ: पीडी/2(5)/2013-भर्ती-IV/5901--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में उनके नाम के आगे उल्लिखित कॉलम 3 से 5 में दर्शाये गये पद, वेतमान तथा नियुक्ति तिथि में, आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति पद	वेतमान (रुपए)	नियुक्ति तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री सी. शिवकुमार	तकनीकी अधिकारी - सी	15600-39100+5400 (ग्रेड पे)	16.01.2014 (पूर्वाहन)
2.	डॉ हुसेन आहमद बारभुईया	तकनीकी अधिकारी - डी	15600-39100+6600 (ग्रेड पे)	17.04.2014 (पूर्वाहन)
3.	डॉ विनू वी नम्बोदिरि	वैज्ञानिक अधिकारी - ई	15600-39100+6600 (ग्रेड पे)	21.04.2014 (पूर्वाहन)

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई-400085, दिनांक 26 मई 2014

संख्या/जीएफ/38/स्थापना/5079--राष्ट्रपति, परमाणु उर्जा विभाग के वर्ग "ए" के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजिनियरों, को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	प्रारंभिक नियुक्ति का ग्रेड/पद	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री वकील नफिस अहमद	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01/09/2008
2.	कुमारी दिव्या कोहली	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01/08/2013

राखी आर पाटील
उप स्थापना अधिकारी

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400 020, दिनांक 23 अप्रैल 2014

सं. एफ. 301-एडी(एटी)/2014-15--आयकर अपीलीय अधिकरण, द्वारा संचालित सीधी भर्ती द्वारा श्री घनश्याम मौर्य को पे बैंड रुपए 9,300-34,800/- में ग्रेड पे रुपए 4,800/- के साथ स्थानापन्न रूप में नियमित आधार पर, दिनांक 30.10.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद पीठें, अहमदाबाद में अस्थायी क्षमता से वरि. निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

श्री घनश्याम मौर्य 30.10.2013 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

एच. एल. कारवा
अध्यक्ष

सं. एफ. 301-एडी(एटी)/2014-15--आयकर अपीलीय अधिकरण, द्वारा संचालित सीधी भर्ती द्वारा श्री वक्कम रामबाबू को पे बैंड रुपए 9,300-34,800/- में ग्रेड पे रुपए 4,800/- के साथ स्थानापन्न रूप में नियमित आधार पर, दिनांक 16.08.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक आयकर अपीलीय अधिकरण, जोधपुर पीठ, जोधपुर अस्थायी क्षमता से वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

श्री वक्कम रामबाबू 16.08.2013 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

एच. एल. कारवा
अध्यक्ष

सं. एफ. 301-एडी(एटी)/2014-15--आयकर अपीलीय अधिकरण, द्वारा संचालित सीधी भर्ती द्वारा श्री शरवण कुमार को पे बैंड रुपए 9,300-34,800/- में ग्रेड पे रुपए 4,600/- के साथ स्थानापन्न रूप में नियमित आधार पर, दिनांक 27.02.2013 के अपरान्ह से आगामी आदेशों तक आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठें, मुंबई अस्थायी क्षमता से निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

श्री शरवण कुमार 27.02.2013 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

एच. एल. कारवा
अध्यक्ष

सं. एफ. 301-एडी(एटी)/2014-15--आयकर अपीलीय अधिकरण, द्वारा संचालित सीधी भर्ती द्वारा श्री रवि कुमार को पे बैंड रुपए 9,300-34,800/- में ग्रेड पे रुपए 4,600/- के साथ स्थानापन्न रूप में नियमित आधार पर, दिनांक 26.02.2013 के अपरान्ह से आगामी आदेशों तक आयकर अपीलीय अधिकरण, पुणे पीठें, पुणे अस्थायी क्षमता से निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

श्री रवि कुमार 26.02.2013 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

एच. एल. कारवा
अध्यक्ष

सं. एफ. 301-एडी(एटी)/2014-15--आयकर अपीलीय अधिकरण, द्वारा संचालित सीधी भर्ती द्वारा श्री अमित रंजन को पे बैंड रुपए 9,300-34,800/- में ग्रेड पे रुपए 4,600/- के साथ स्थानापन्न रूप में नियमित आधार पर, दिनांक 04.03.2013 के अपरान्ह से आगामी आदेशों तक आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर अस्थायी क्षमता से निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

श्री अमित रंजन 04.03.2013 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

एच. एल. कारवा
अध्यक्ष

सं. एफ. 301-एडी(एटी)/2014-15--आयकर अपीलीय अधिकरण, द्वारा संचालित सीधी भर्ती द्वारा श्री अमित कुमार श्रीवास्तव को पे बैंड रुपए 9,300-34,800/- में ग्रेड पे रुपए 4,600/- के साथ स्थानापन्न रूप में नियमित आधार पर, दिनांक 01.03.2013 के अपरान्ह से आगामी आदेशों तक आयकर अपीलीय अधिकरण, आगरा पीठ, आगरा अस्थायी क्षमता से निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

श्री अमित कुमार श्रीवास्तव 01.03.2013 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

एच. एल. कारवा
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार)
कानपुर, दिनांक 28 मई 2014

संख्या : 560(5)/677—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सिन संख्या
1.	वी टू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2002PLC027134
2.	जेड बी एस एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2008PTC035112
3.	कटारिया सोप एण्ड डिर्टजेंट प्राइवेट लिमिटेड	U24241UP2004PTC029310
4.	कटारिया केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24111UP1995PTC018149
5.	पी ए सी एंडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74300UP1981PTC005429
6.	एल सी ए एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	U01112UP2005PTC029657
7.	सर्क टूर्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2005PTC029424
8.	गंगा हबल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24233UP2005PTC029414
9.	अनुष्का स्टील प्राइवेट लिमिटेड	U27104UP2005PTC029409
10.	दत्ता एण्ड दत्ता कान्सट्रक्शन कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2005PTC029403
11.	आसपीस सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52322UP2005PTC029390
12.	ट्रिनिटी बिल्डटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC029382
13.	सिद्धान्त डेवलपर्स एण्ड कान्सट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC029366
14.	ओमलिक फारमास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U52311UP2004PTC029351
15.	कोलोसेल मार्केटिंग एण्ड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC029349
16.	निरमल पेट्रो आयल्स प्राइवेट लिमिटेड	U11200UP2004PTC029333
17.	तरकार कान्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC029338
18.	भार्गो बोर्ड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2004PTC029324
19.	माई वे मार्केटिंग एण्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC029299
20.	हरित लैंड एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड	U01119UP2004PTC029302
21.	लहोटी मरकनडाइस प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC029293
22.	सोलोन एग्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U11101UP2004PTC029294
23.	अनीता इण्टरप्राइसेज प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC029286

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सिन संख्या
24.	अरबाज फ़ोजेन फूडस प्राइवेट लिमिटेड	U15111UP2004PTC029283
25.	जय बालाजी इन्फ़ोरेण मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U66010UP2004PTC029278
26.	कुनिका मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52334UP2004PTC028666
27.	अलपाइन मरकन्टाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51909UP2004PTC029279
28.	बीजन मेडिकामेंट प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC029276
29.	षाइन हर्बल प्राइवेट लिमिटेड	U24246UP2004PTC029270
30.	राधा पैलेस होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U55101UP2004PTC029249
31.	ग्रीन रिटेल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC029251
32.	वी एस आर पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U23209UP2004PTC029248
33.	एल्स डीम्स डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC029223
34.	उरेखा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC029226
35.	रोबस्ट कान्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC029217
36.	ग्लाइज बिजनेस लिंक प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC029214
37.	आकांछा मनी चेंजर्स प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2004PTC029216
38.	पेंटागांव पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड	U22110UP2004PTC029212
39.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	U85110UP2004PTC029205
40.	एवोकेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52339UP2004PTC029206
41.	श्री हरी कान्सेप्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC029208
42.	राव एण्ड सूर्यवंशी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC029195
43.	सिधी सोप्स प्राइवेट लिमिटेड	U51391UP2004PTC029197
44.	वरुन पैकेजिंग इण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	U21014UP1993PTC015233
45.	निरोग हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	U85110UP2004PTC029201
46.	इण्डो एफ़्रो इम्पेक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2004PTC029202
47.	रेनूसंत फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP2004PTC029194
48.	आई एस एम इन्फ़ोरेस कंसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U66010UP2004PTC029191
49.	जांबाज सिक्यूरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74920UP2004PTC029186
50.	नाज वे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52335UP2004PTC029188
51.	जतिया इण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	U60100UP2004PTC029190
52.	ओसाका आरगेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U15140UP2004PTC029090
53.	जिनी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U52311UP2004PTC029174
54.	पी पी सारीज प्राइवेट लिमिटेड	U17293UP2004PTC029161
55.	कृष्णवंशी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	U63022UP2004PTC029155

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सिन संख्या
56.	दूत कोरियर प्राइवेट लिमिटेड	U64120UP2004PTC029152
57.	क्लाइम्ब मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC029139
58.	स्नोलेक्स मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51496UP2004PTC029142
59.	दाना ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC029129
60.	लखनऊ डाटाग्राम्ट इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2004PTC029122
61.	श्रीरामचंद्र गैसेस प्राइवेट लिमिटेड	U40200UP2004PTC029115
62.	फाजिल्स साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2004PTC029120
63.	जफर अली कोल सप्लाय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U10102UP2004PTC029111
64.	रेमोरा रेमिडीज प्राइवेट लिमिटेड	U52311UP2004PTC029102
65.	राघव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC029088
66.	श्री जी बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड	U45202UP2004PTC029074
67.	संगरीला कंसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74210UP2004PTC029062
68.	आर आई पी एल इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U32109UP2004PTC029065
69.	वेलटास्क फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51697UP2004PTC029060
70.	लकी टी प्राइवेट लिमिटेड	U51226UP2004PTC029050
71.	जेया स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	U27104UP2004PTC029045
72.	होटल उत्तम क्लब हाउस प्राइवेट लिमिटेड	U55101UP2004PTC029041
73.	षिक्षा एजूकेषन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U80211UP2004PTC029013
74.	हिमअंजन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC029022
75.	क्विकवेल रेमिडीज प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC029027
76.	मेटाफोर एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74300UP2004PTC029004
77.	एनटेन्ट कंसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140UP2004PTC028976
78.	टाइटन रेमिडीज प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028980
79.	हास्ट केमिकल्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028986
80.	संडीलिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028973
81.	इंज्वाय लाइफ मरकन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड	U51505UP2004PTC028966
82.	शहनाज हुसेन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2004PTC028953
83.	गुलिस्तान हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028955
84.	षहनाज हुसेन इण्डिया हाबल गुडस प्राइवेट लिमिटेड	U24239UP2004PTC028959
85.	एस पी एस मरकन्टाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2004PTC028946
86.	वी श्री एकजिम ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	U18101UP2004PTC028920
87.	महाराजा हरिष्चंद्र कान्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028919

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सिन संख्या
88.	एन के ट्रांसफारमर प्राइवेट लिमिटेड	U31102UP2004PTC028895
89.	राषी कोलोनाइजर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028898
90.	भोलेनाथ सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028899
91.	अरमानबाबा इण्टरटैमेंट एण्ड मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U92132UP2004PTC028900
92.	डान इंडिया सिन्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP1996PLC020078

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 30 मई 2014

सं. आर ओ सी/560(5)/एफ टी ई/2000—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है।

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
1.	24321	ट्रिश इनफोवेव लिमिटेड
2.	33208	विजन रैजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड
3.	35738	मस्त कैलेंडर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
4.	33169	क्राऊन इनफ्रा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	16109	अग्रवाल राईस एक्सपोर्ट्स एंड इनवैस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	32749	इनफ आऊटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
7.	20409	क्राऊन केबलस प्राइवेट लिमिटेड
8.	35235	पदमावती सोलवैक्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	33283	स्टारशिष्य एजुकेशन कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	36360	टुरबो पावर वैनचरस प्राइवेट लिमिटेड
11.	32604	ओपरेटिंग टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
12.	32129	गुड टाईमस एजूप्रो कंसलटिंग प्राइवेट लिमिटेड
13.	33232	प्रोटोन एजुकेशनल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
14.	34057	सैवनसीस इमपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
15.	33937	सैवन स्टार लैंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
16.	16762	मियूचल पोर्टफोलियो सर्विसस लिमिटेड
17.	33863	मिस्टर ब्रेन मास्टर सकिल्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
18.	12570	निवा कैम प्राइवेट लिमिटेड
19.	32739	लैक्स कोमरसी प्राइवेट लिमिटेड
20.	34061	गुरुडस रियल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड
21.	26533	निधान ओवरसिस प्राइवेट लिमिटेड
22.	08026	चंद्रा मरकैटाईल प्राइवेट लिमिटेड
23.	32627	ए के जवैल्स प्राइवेट लिमिटेड
24.	13279	चंगोथिया मोटरस प्राइवेट लिमिटेड
25.	33902	गौतम डायरीस प्राइवेट लिमिटेड
26.	33892	गौतम डायरी एंड फूडस प्राइवेट लिमिटेड
27.	32120	शौभित ट्रेडरस प्राइवेट लिमिटेड
28.	33643	चंडीगड मैकेनिकल टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
29.	30458	आरपीएल ईनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
30.	34122	नूर रिपैलेंटस प्राइवेट लिमिटेड
31.	32461	लाली परफोरमेंस केयरस प्राइवेट लिमिटेड
32.	30964	एमग्रोन साईटस प्राइवेट लिमिटेड
33.	28744	होरीजोन इनस्टीचियूट आफ कम्पिटिशनस प्राइवेट लिमिटेड
34.	34421	मेगा मिलियनस लाटरी डिस्ट्रीब्यूटरस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
35.	30568	इंडस सोरसिंग प्राइवेट लिमिटेड
36.	28332	जी आर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
37.	31836	लोजिको पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
38.	29097	फिनैस्ट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
39.	34158	डिवनीटी इनफोटैक प्राइवेट लिमिटेड
40.	11247	कॉटीनैन्टल ट्रेवल सर्विस जालंधर प्राइवेट लिमिटेड

राज सिंह
रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चण्डीगढ़

लिमिटेड लाईविलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 तथा निम्नलिखित एल.एल.पी के मामले esa

कोलकाता, दिनांक 27 मई 2014

संख्या क0र0/प0व0/एल.एल.पी-75/2014--उपरोक्त विषय पर भारत के राजपत्र में अदिसूचित हेतु एल.एल.पी. नियम 2009 का नियम 37(3) के साथ पठित लिमिटेड लाईविलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 की धारा 75 के अन्तर्गत निम्नलिखित 2 एल.एल.पी. के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा वे एल.एल.पी. विटित कर दी गई हैं।

क्र० सं०	एलएलपीआईएन	एलएलपी का नाम
1	एएए-6829	त्रिपाठी बूक रेंटल एल.एल.पी
2	एएए-1778	नेचुरल एकजोटिक प्रोडक्ट्स एल.एल.पी

प्रणय चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956

और

निम्नलिखित कम्पनी के विषय में

कटक-753014, दिनांक 20 मई 2014

सं. आर.ओ.सि.560(5)/2014/570—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सुचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विद्युतित हो गई हैं।

क्र. सं.	पं. सं.	कम्पनी का नाम
01	15-13351	मेसर्स अनुश्री सभिसेस् एनड कन्सेप्टस् प्राईवेट लिमिटेड
02	15-13356	मेसर्स एसबिजि इन्फ्राटेक सर्भिसेस (इन्डिया) लिमिटेड
03	15-13357	मेसर्स एन्टर10 लिम् भेन्वर्स् प्राईवेट लिमिटेड
04	15-13359	मेसर्स महिमा अलेख् इन्फ्राटेक् प्राईवेट लिमिटेड
05	15-13370	मेसर्स नीलचक्र ड्रिमहोम् सल्युसन् प्राईवेट लिमिटेड
06	15-13371	मेसर्स सुभश्री डेजाईनर्स् एनड इन्फ्राष्ट्रक्चर् प्राईवेट लिमिटेड
07	15-13374	मेसर्स श्री गणेश हाबिटाट्स् प्राईवेट लिमिटेड
08	15-13375	मेसर्स साईमहावीर डेभलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
09	15-13377	मेसर्स एक्सेलेन्स ई-सर्भिसेस् प्राईवेट लिमिटेड
10	15-13384	मेसर्स मा बिमला विल्डर्स एनड डेभलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
11	15-13385	मेसर्स जेएसवि इन्फरमेसन सिस्टम् प्राईवेट लिमिटेड
12	15-13388	मेसर्स साई सर्भोदय मल्टि प्रोडक्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
13	15-13392	मेसर्स पिएसबी कस्टोमर् सर्भिसेस् प्राईवेट लिमिटेड

क्र. सं.	पं. सं.	कम्पनी का नाम
14	15-13393	मेसर्स रन्जित आगो इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
15	15-13397	मेसर्स गन्जाम् फुड्स प्राईवेट लिमिटेड
16	15-13399	मेसर्स सिद्धीबिनायक टेक्नो इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड
17	15-13400	मेसर्स साई सोम्य आगो (इन्डिया) लिमिटेड
18	15-13403	मेसर्स मोनालिरिअल् एस्टेट् एनड डेभलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
19	15-13405	मेसर्स जम्बू एक्सपोर्टस् प्राईवेट लिमिटेड
20	15-13410	मेसर्स सार्थक् आडभान्स् इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड
21	15-13413	मेसर्स स्टिलेक्स इन्फ्राष्ट्रक्चर् प्राईवेट लिमिटेड
22	15-13417	मेसर्स रिधिकन् बिल्डर्स् प्राईवेट लिमिटेड
23	15-13418	मेसर्स सिलिकन् कन्जुमर् केयार् प्राईवेट लिमिटेड
24	15-13421	मेसर्स फुचर् फार्मिन्ग् रिअलकन् लिमिटेड
25	15-13422	मेसर्स गृहम् इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड
26	15-13424	मेसर्स हरेक्रिज्मलिटि प्रोजेक्ट वाक्स प्राईवेट लिमिटेड
27	15-13427	मेसर्स एपिटिचिआ लर्निंग सिस्टम्स् प्राईवेट लिमिटेड
28	15-13428	मेसर्स फुचरलाईफ् डेभलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
29	15-13429	मेसर्स जेना मेडिआ प्राईवेट लिमिटेड
30	15-13432	मेसर्स डि० भि० प्रोसेसर्स एनड इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड
31	15-13433	मेसर्स मदानि लजिस्टिक्स् प्राईवेट लिमिटेड
32	15-13434	मेसर्स बासूमति सिड्स एनड एग्री प्राईवेट लिमिटेड
33	15-13436	मेसर्स पि९भि वेब सल्यूसन्स् प्राईवेट लिमिटेड
34	15-13438	मेसर्स एमर्ज इन्फ्राष्ट्रक्चर् प्राईवेट लिमिटेड
35	15-13442	मेसर्स ए एस आर फेरो आलोइज् प्राईवेट लिमिटेड
36	15-13447	मेसर्स आफटर्लाईफ् टेक्नोलोजिज् प्राईवेट लिमिटेड
37	15-13448	मेसर्स इन्डो-युएस् हस्पिटाल् प्राईवेट लिमिटेड
38	15-13451	मेसर्स कान्डिड इन्नोवेटिव् सल्युसन्स् प्राईवेट लिमिटेड
39	15-13455	मेसर्स पि के बान्का एनड को प्राईवेट लिमिटेड
40	15-13456	मेसर्स राईजिन्ग् बाईओ-टेक् प्राईवेट लिमिटेड
41	15-13458	मेसर्स ईमपेरिआ कस्मो प्रोजेक्टस् प्राईवेट लिमिटेड
42	15-13465	मेसर्स जी फोकस् इन्फ्रा प्रपर्टी प्राईवेट लिमिटेड
43	15-13468	मेसर्स होर्ड् प्रोटेज् लिमिटेड
44	15-13470	मेसर्स मा चन्डि बिल्डटेक् प्राईवेट लिमिटेड

क्र. सं.	पं. सं.	कम्पनी का नाम
45	15-13472	मेसर्स केआर् एन कारिर् हेल्थ सर्भिसेस् प्राईवेट लिमिटेड
46	15-13473	मेसर्स बुल्स् बुलिअन् ट्रेडमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
47	15-13474	मेसर्स सारा ईन्डिआ रिटेल्स् लिमिटेड
48	15-13481	मेसर्स जय साईजगन्नाथ डेभलपर् एनड बिल्डर्स् प्राईवेट लिमिटेड
49	15-13482	मेसर्स स्वदेष्ठी आग्रो (ईन्डिआ) प्राईवेट लिमिटेड
50	15-13484	मेसर्स एफ एस एस मार्केटिंग लिमिटेड
51	15-13486	मेसर्स कन्फाईड् टेलिसफट् प्राईवेट लिमिटेड
52	15-13497	मेसर्स सागरिका इफ्राभेनचर्स् प्राईवेट लिमिटेड
53	15-13499	मेसर्स अभिन्ता भेन्चर्स् प्राईवेट लिमिटेड
54	15-13507	मेसर्स साईसम्पर्क डेभलपर्स् प्राईवेट लिमिटेड
55	15-13509	मेसर्स मदर् प्रोग्रेस ईन्फ्राटेक् प्राईवेट लिमिटेड
56	15-13510	मेसर्स के0 के0 परिवार् (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
57	15-13515	मेसर्स ईन्भेष्टा ईन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड
58	15-13521	मेसर्स श्री लख्मी गनेष ईन्फ्रास्ट्रक्चर् प्राईवेट लिमिटेड
59	15-13523	मेसर्स ओम् साई भिजन् मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
60	15-13527	मेसर्स हाप्पी कम्प्यूनिकेसन्स् प्राईवेट लिमिटेड
61	15-13529	मेसर्स हीन्दुस्तान् एग्रो परिवार् लिमिटेड
62	15-13530	मेसर्स हनीबी प्रोजेक्टस् प्राईवेट लिमिटेड
63	15-13532	मेसर्स स्मार्क कन्सलटिंग् (ईन्डिआ) प्राईवेट लिमिटेड
64	15-13534	मेसर्स एप्पल् मानेज्मेन्ट एनड प्रर्पटिज् प्राईवेट लिमिटेड
65	15-13535	मेसर्स स्वस्तिक् ट्रान्सिसटम् प्राईवेट लिमिटेड
66	15-13542	मेसर्स फुचरकेयार् ईन्फ्राप्रर्पटिज् प्राईवेट लिमिटेड
67	15-13547	मेसर्स गुरूदेव् ईन्फ्राकन् प्राईवेट लिमिटेड
68	15-13555	मेसर्स साई आसियाना प्रोजेक्टस् प्राईवेट लिमिटेड
69	15-13556	मेसर्स भस्टेक् (ईन्डिआ) ईन्फ्रोलाब प्राईवेट लिमिटेड
70	15-13559	मेसर्स श्री हर बायोटेक् प्राईवेट लिमिटेड
71	15-13563	मेसर्स क्रैसेट् ईन्फ्रोटेक् लिमिटेड
72	15-13565	मेसर्स एफि ईन्फ्राप्रोजेक्टस् प्राईवेट लिमिटेड
73	15-13569	मेसर्स अनमोल् बैभब् डेभलपर्स् प्राईवेट लिमिटेड
74	15-13570	मेसर्स होमेज् कन्सल्टान्स एनड सर्भिसेस् प्राईवेट लिमिटेड
75	15-13576	मेसर्स रीमेक्स् सर्भिस् सल्यूसन्स् प्राईवेट लिमिटेड

क्र. सं.	पं. सं.	कम्पनी का नाम
76	15-13583	मेसर्स ईटालिया स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
77	15-13587	मेसर्स बाईवो-साईन्स हेल्थकेयार् लिमिटेड
78	15-13592	मेसर्स री सिरिडीसाई ग्लोबाल लजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड

सी. के. दास
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956

और

निम्नलिखित कम्पनी के विषय में

कटक-753014, दिनांक 28 मई 2014

सं. आर.ओ.सि.560(5)/2014/616—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

क्र. सं.	पं. सं.	कम्पनी का नाम
01	15-13604	मेसर्स साई क्रीष्णा रोड क्यारिअर्स प्राईवेट लिमिटेड
02	15-13607	मेसर्स अभतार् इमेन्टस् प्राईवेट लिमिटेड
03	15-13608	मेसर्स साई भर्षा फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
04	15-13613	मेसर्स आफलुएन्स मल्टिट्रेड् प्राईवेट लिमिटेड
05	15-13617	मेसर्स इस्ट इन्डिआ कम्बाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
06	15-13619	मेसर्स सेफरेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर् प्राईवेट लिमिटेड
07	15-13624	मेसर्स स्वर्न टुर्स् एनड ट्राभेल्स प्राईवेट लिमिटेड
08	15-13633	मेसर्स जीटा फुड्स् इन्डिआ प्राईवेट लिमिटेड
09	15-13636	मेसर्स श्री मुभर्स् एनड ट्रेडर्स् प्राईवेट लिमिटेड
10	15-13641	मेसर्स सुश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर् प्राईवेट लिमिटेड
11	15-13642	मेसर्स बिसाल् मेट्रोपोलिस इन्डिआ प्राईवेट लिमिटेड
12	15-13644	मेसर्स सागरिका लाईफस्टाइल् प्राईवेट लिमिटेड
13	15-13645	मेसर्स ग्रीनक्स भील्लाज् एनड कटेजस् प्राईवेट लिमिटेड
14	15-13648	मेसर्स पन्चसखा क्रिसी निर्मान् प्राईवेट लिमिटेड
15	15-13651	मेसर्स 7-आईज् इन्फ्रा सर्भिसेस् प्राईवेट लिमिटेड
16	15-13655	मेसर्स ईन्टीग्रटी इन्फोटेक् प्राईवेट लिमिटेड
17	15-13658	मेसर्स स्पेसिमेन्स् मिनेराल्स प्राईवेट लिमिटेड
18	15-13659	मेसर्स श्रीसाई इन्फ्राप्रपरटिज् प्राईवेट लिमिटेड
19	15-13662	मेसर्स स्माइल् मेडिआ एनड एजुकेसन् प्राईवेट लिमिटेड
20	15-13673	मेसर्स साई आषिष इन्फ्रास्ट्रक्चर् प्राईवेट लिमिटेड
21	15-13675	मेसर्स इन्टरओसन् कन्सलटान्स सर्भिसेस् प्राईवेट लिमिटेड
22	15-13679	मेसर्स ट्रेड्टेक् सल्यूसन्स प्राईवेट लिमिटेड

क्र. सं.	पं. सं.	कम्पनी का नाम
23	15-13681	मेसर्स कल्याण हेल्थ केयार् प्राईवेट लिमिटेड
24	15-13683	मेसर्स बिभुकल्यान् ईन्फ्राप्रॉपर्टि लिमिटेड
25	15-13688	मेसर्स सागासिअस् रेसिप्रोकेट् प्राईवेट लिमिटेड
26	15-13693	मेसर्स प्रताप् रिअल्कन् प्राईवेट लिमिटेड
27	15-13696	मेसर्स अब्सेक् रिसोर्सेस् लिमिटेड
28	15-13697	मेसर्स इनस्टान्ट् न्युज् एनड एन्टरटेन्मेन्ट् प्राईवेट लिमिटेड
29	15-13699	मेसर्स अधिप् आग्रीफो इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड
30	15-13700	मेसर्स अभिनब् इन्टरनेट् इन्डिआ प्राईवेट लिमिटेड
31	15-13702	मेसर्स सेभेन् सफ्ट्वेय् सर्भिसेस् प्राईवेट लिमिटेड
32	15-13703	मेसर्स सीकीरिती एस्टेट्स् प्राईवेट लिमिटेड
33	15-13704	मेसर्स ईष्ट् होप् कनस्ट्रक्शन्स् लिमिटेड
34	15-13713	मेसर्स जलराम् मिनेराल् प्राईवेट लिमिटेड
35	15-13724	मेसर्स गुगुलु इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स् इन्डिआ प्राईवेट लिमिटेड
36	15-13725	मेसर्स धन्भी एस्टेट्स् लिमिटेड
37	15-13729	मेसर्स स्नेहलता इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स् प्राईवेट लिमिटेड
38	15-13730	मेसर्स आभिआन् ई-सल्युसन्स् प्राईवेट लिमिटेड
39	15-13741	मेसर्स साइ प्रभा इन्फ्रास्ट्रक्चर् लिमिटेड
40	15-13742	मेसर्स स्वर्गइन्फ्रा (इन्डिआ) लिमिटेड
41	15-13743	मेसर्स आरिओसिस् लाव्स् प्राईवेट लिमिटेड
42	15-13745	मेसर्स साइ प्रसाद् इन्फ्रा डेभलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
43	15-13752	मेसर्स सिटी सप्रिधी प्राईवेट लिमिटेड
44	15-13754	मेसर्स जेएस् इन्फ्राभेनचर् प्राईवेट लिमिटेड
45	15-13755	मेसर्स ग्रीनपार्क ईन् प्राईवेट लिमिटेड
46	15-13756	मेसर्स अर्नपुर्ना आसेट्स् एनड मार्केटिन्ग् प्राईवेट लिमिटेड
47	15-13757	मेसर्स कामाक्खा इन्फ्राभेनचर् प्राईवेट लिमिटेड
48	15-13758	मेसर्स पीके इन्फ्रा कीएट्स् प्राईवेट लिमिटेड
49	15-13761	मेसर्स एस एस मेन्टेनान्स् एनड इन्जिनिअरीन्ग् प्राईवेट लिमिटेड
50	15-13763	मेसर्स युनीकन्सेप्ट् सल्युसन्स् प्राईवेट लिमिटेड
51	15-13764	मेसर्स चन्द्र शेखर् बाओटेक् प्राईवेट लिमिटेड
52	15-13766	मेसर्स सिस्टमेटिक्स् बेभेरेज् प्राईवेट लिमिटेड
53	15-13767	मेसर्स इन्फ्रा कर्ड प्लस् प्राईवेट लिमिटेड
54	15-13770	मेसर्स एम् मन्जर् आग्रोटेक् प्राईवेट लिमिटेड
55	15-13771	मेसर्स एएसबिएन् ईन्फ्रास्ट्रक्चर् प्राईवेट लिमिटेड
56	15-13774	मेसर्स लजिक् पिपुल् मार्केटिन्ग् प्राईवेट लिमिटेड
57	15-13783	मेसर्स जेन् ग्राफीक्स् प्राईवेट लिमिटेड

क्र. सं.	पं. सं.	कम्पनी का नाम
58	15-13784	मेसर्स सुपर् ड्रिम् कन्स्ट्रक्शन् प्राईवेट लिमिटेड
59	15-13786	मेसर्स डिअन् इम्पेक्स् प्राईवेट लिमिटेड
60	15-13787	मेसर्स एसएस टेक्नो इन्फ्रा कन्सलटान्टस् प्राईवेट लिमिटेड
61	15-13788	मेसर्स आदयान्त प्रपट्रिज् लिमिटेड
62	15-13789	मेसर्स एलएसआर एस्टेट् एनड डेभ्लपर्स प्राईवेट लिमिटेड
63	15-13791	मेसर्स सेफ्जोन् मार्केटिन्ग् प्राईवेट लिमिटेड
64	15-13794	मेसर्स गुड्ल्यान्ड हापीहोम्स् इन्फ्रालिमिटेड
65	15-13795	मेसर्स नीलचक्र प्रपट्रिज् लिमिटेड
66	15-13797	मेसर्स सन्कट मोचन होम् क्रीएसन् प्राईवेट लिमिटेड
67	15-13798	मेसर्स क्लीमेन्ट् बाइवोलजिकाल्स् प्राईवेट लिमिटेड

बी. मीश्र
कम्पनी रजिस्ट्रार
ओडिषा

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110 069, the 30th May 2014

No. A-38013/01/2014-Admn.II—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Sh. Sushil Kumar II, Supdt. (DP) in the office of the Union Public Service Commission stands retired from Government service with effect from the afternoon of 31/05/2014 (31st May, 2014).

SURESH KUMAR NAYAK
Under Secy. (Admn.II)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 8th May 2014

No. DP/Pers.I/2014/0060/3/95/2014—The President is pleased to appoint Smt. Archana Ramasundraram, IPS(TN:1980) as Additional Director, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 08.05.2014 for a period of 04 years or till further orders, whichever event takes place earlier.

DEEPIKA SURI
Dy. Director (Pers)

The 20th May 2014

No. DP/Pers.I/2014/0061/3/150/2011—Services of Shri Suvendra Kumar Bhagat, IPS (UP:1998), Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation, have been placed back at the disposal of Government of Uttar Pradesh with effect from the afternoon of 24.03.2014 on premature repatriation.

DEEPIKA SURI
Dy. Director (Pers)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-03, the 28th April 2014

No. O.II-3672/2014-Pers-DA-I—The Govt. of India have appointed Shri Kishore Jha, IPS (MT : 82) as Additional Director General (Addl. DG) in CRPF on deputation basis in the HAG pay scale of Rs. 67,000-79,000/- for a period upto 31/01/2018 i.e. date of his superannuation from the date of taking over the charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Additional Director General, CRPF on the forenoon of 28/04/2014.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

The 26th May 2014

No. O.II.3796/08-Pers(MOs)—Consequent on expiry of one month's notice regarding termination of service served upon Dr. Pawan Singh, Medical Officer (Asstt. Comdt.), IRLA-7720 of GC, CRPF, Mokamaghat vide this Directorate Notice of even number dated 11.04.2014 on 22.04.2014, his services stand terminated with effect from 21.05.2014(AN). Accordingly, he has been struck off the strength of this force with effect from the same date i.e. 21.05.2014 (AN).

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

The 28th May 2014

No. O.II. 3974/2014-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Saumya Singh, selected candidate of MOSB-2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs.15,600-39,100/- plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 23/05/2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
New Delhi-03, the 28th April 2014

No. E-16013/SSD-IPS/2014/Pers-II/573—The President is pleased to appoint Shri S S Dev Datta Singh (OR:1998) as Deputy Inspector General in the Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,900/- in Central Industrial Security Force (MHA) on deputation with effect from the forenoon of 28.04.2014.

D. SHYAMALA
Asstt. Inspector General (Pers)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 22nd May 2014

No. PD/11(1)/2013-R-III/2014/5860—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Vinod Prasad Ravidatt Sharma, Assistant Security Officer (A) as Security Officer in this Research Centre on adhoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300-34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 08.05.2013(FN) to 05.05.2014(AN).

MUTHULAKSHMI J.
Asstt. Personnel Officer

The 23rd May 2014

No. PD/6(5)/2013-R-III/2014/5914—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Kala Singh, Assistant, DAE, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300-34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- in this Research Centre with effect from the forenoon of 13.05.2014 on regular basis until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Asstt. Personnel Officer

Mumbai-85, the 23rd May 2014

No. PD/2(5)/2013-R-IV/5901—President is pleased to appoint the undermentioned persons in Bhabha Atomic Research Centre to the post in the Pay Band and Grade Pay with effect from the date of appointment as shown in column 3 to 5, until further orders:

Sr. No.	Name	Appointed as	Pay Band (Rs.)	Date of Appointment (FN)
1	2	3	4	5
1.	Shri C. Sivakumar	Technical Officer 'C'	15,600-39,100/- + 5,400/- (GP)	16.01.2014
2.	Dr. Hussain Ahmed Barbhuiya	Technical Officer 'D'	15,600-39,100/- + 6,600/- (GP)	17.04.2014
3.	Dr. Vinu V. Namboodiri	Scientific Officer 'E'	15,600-39,100/- + 6,600/- (GP)	21.04.2014

M. V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

Mumbai - 400 085, the 26th May 2014

No. GF/38/Estt.II/5079--The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers belonging to Group A of the Department of Atomic Energy in a substantive capacity with effect from the dates mentioned against each.

Sl. No	Name	Grade/Post of initial apptt.	Date of confirmation
1.	Shri Vakil Nafees Ahmad	Scientific Officer/C	01.09.2008
2.	Kumari Divya Kohli	Scientific Officer/C	01.08.2013

RAKHI R. PATIL
Dy. Establishment Officer

INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400 020, the 23rd April 2014

No. F.301-Ad (AT)/2014-15—On his selection through Direct Recruitment conducted by Income-tax Appellate Tribunal, Shri Ghanshyam Maurya is appointed to officiate as Senior Private Secretary, in the Income-tax Appellate Tribunal, Ahmedabad Benches, Ahmedabad on regular basis in a temporary capacity with effect from the forenoon of 30.10.2013, until further orders in the Pay Band, PB-2 of Rs. 9,300 – 34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/-.

Shri Ghanshyam Maurya will be on probation for a period of two years with effect from 30.10.2013 (F/N).

H. L. KARWA
President

No. F.301-Ad (AT)/2014-15—On his selection through Direct Recruitment conducted by Income-tax Appellate Tribunal, Shri Vukkem Rambabu is appointed to officiate as Senior Private Secretary, in the Income-tax Appellate Tribunal, Jodhpur Bench, Jodhpur on regular basis in a temporary capacity with effect from the forenoon of 16.08.2013, until further orders in the Pay Band, PB-2 of Rs. 9,300 – 34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/-.

Shri Vukkem Rambabu will be on probation for a period of two years with effect from 16.08.2013 (F/N).

H. L. KARWA
President

No. F.301-Ad (AT)/2014-15—On his selection through Direct Recruitment conducted by Income-tax Appellate Tribunal, Shri Sharwan Kumar is appointed to officiate as Private Secretary, in the Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches, Mumbai on regular basis in a temporary capacity with effect from the forenoon of 27.02.2013, until further orders in the Pay Band, PB-2 of Rs. 9,300–34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/-.

Shri Sharwan Kumar will be on probation for a period of two years with effect from 27.02.2013 (F/N).

H. L. KARWA
President

No. F.301-Ad (AT)/2014-15—On his selection through Direct Recruitment conducted by Income-tax Appellate Tribunal, Shri Ravi Kumar is appointed to officiate as Private Secretary, in the Income-tax Appellate Tribunal, Pune Benches, Pune on regular basis in a temporary capacity with effect from the forenoon of 26.02.2013, until further orders in the Pay Band, PB-2 of Rs. 9,300 – 34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/-.

Shri Ravi Kumar will be on probation for a period of two years with effect from 26.02.2013 (F/N).

H. L. KARWA
President

No. F.301-Ad (AT)/2014-15—On his selection through Direct Recruitment conducted by Income-tax Appellate Tribunal, Shri Amit Ranjan is appointed to officiate as Private Secretary, in the Income-tax Appellate Tribunal, Jaipur Bench, Jaipur on regular basis in a temporary capacity with effect from the forenoon of 04.03.2013, until further orders in the Pay Band, PB-2 of Rs. 9,300 – 34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/-.

Shri Amit Ranjan will be on probation for a period of two years with effect from 04.03.2013 (F/N).

H. L. KARWA
President

No.F.301-Ad (AT)/2014-15—On his selection through Direct Recruitment conducted by Income-tax Appellate Tribunal, Shri Amit Kumar Srivastava is appointed to officiate as Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Agra Bench, Agra on regular basis in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01.03.2013, until further orders in the Pay Band, PB-2 of Rs. 9,300 – 34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/-.

Shri Amit Kumar Srivastava will be on probation for a period of two years with effect from 01.03.2013 (F/N).

H. L. KARWA
President

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

O/o REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of companies Act 1956 and of the following Companies

KANPUR- 208001, the 28th May 2014

No. LC/560(5)/677--Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved :--

Sl No	Company Name	Cin No.
1	2	3
1	WE.TWO MARKETING LIMITED	U51397UP2002PLC027134
2	ZBS EXIM PRIVATE LIMITED	U74900UP2008PTC035112
3	KATARIA SOAPS AND DETERGENTS PRIVATE LIMITED	U24241UP2004PTC029310
4	KATARIA CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24111UP1995PTC018149
5	PAC ADVERTISING PRIVATE LIMITED	U74300UP1981PTC005429
6	L C A AGRO PRIVATE LIMITED	U01112UP2005PTC029657
7	SARCK TOURS AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U63040UP2005PTC029424
8	GANGA HERBALS PRIVATE LIMITED	U24233UP2005PTC029414
9	ANUSHKA STEEL PRIVATE LIMITED	U27104UP2005PTC029409
10	DUTTA AND DUTTA CONSTRUCTION CO. (I) PRIVATE LIMITED	U45201UP2005PTC029403
11	AUSPICE SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U52322UP2005PTC029390
12	TRINITY BUILDTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC029382
13	SIDDHANT DEVELOPERS AND CONSTRUCTION (INDIA) PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC029366
14	OMLIKE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U52311UP2004PTC029351
15	COLOSSEL MARKETING AND EDUCATION PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC029349
16	NIRMAL PETRO OILS PRIVATE LIMITED	U11200UP2004PTC029333
17	TARKAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC029338
18	BHARGO BROAD-CASTING PRIVATE LIMITED	U51399UP2004PTC029324
19	MYWAY MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC029299
20	HARIT LAND AGRITECH PRIVATE LIMITED	U01119UP2004PTC029302
21	LAHOTI MERCANDISE PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC029293
22	SOLON AGRO EXPORTS PRIVATE LIMITED	U11101UP2004PTC029294
23	ANITA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC029286
24	ARBAAZ FROZEN FOODS PRIVATE LIMITED	U15111UP2004PTC029283
25	JAI BALA JI INSURANCE MARKETING PRIVATE LIMITED	U66010UP2004PTC029278
26	KUNICA MARKETING PRIVATE LIMITED	U52334UP2004PTC028666
27	ALPINE MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED	U51909UP2004PTC029279
28	VISION MEDICAMENT PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC029276
29	SHINE HERBAL PRIVATE LIMITED	U24246UP2004PTC029270
30	RADHA PALACE HOTELS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U55101UP2004PTC029249

1	2	3
31	GREEN RETAIL MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC029251
32	V.S.R.PETRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U23209UP2004PTC029248
33	ELSE DREAMS DIRECT MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC029223
34	UREKHA MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC029226
35	ROBUST CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC029217
36	GLAZE BUSINESS-LINK PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC029214
37	AAKAANKSHAA MONEY CHANGERS PRIVATE LIMITED	U67190UP2004PTC029216
38	PENTAGON PUBLISHERS PRIVATE LIMITED	U22110UP2004PTC029212
39	UTTAR PRADESH MEDICAL CENTRE PRIVATE LIMITED	U85110UP2004PTC029205
40	AVOCET MARKETING PRIVATE LIMITED	U52339UP2004PTC029206
41	SHRI HARI CONCEPT MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC029208
42	RAO AND SURYAVANSHI MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC029195
43	SIDDHI SOAPS PRIVATE LIMITED	U51391UP2004PTC029197
44	VARUN PACKAGING ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U21014UP1993PTC015233
45	NIROG HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U85110UP2004PTC029201
46	INDO AFRO IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51399UP2004PTC029202
47	RENUSANT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U65910UP2004PTC029194
48	ISM INSURANCE CONSULTANT PRIVATE LIMITED	U66010UP2004PTC029191
49	JAANBAAZ SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74920UP2004PTC029186
50	NAAJ WAY MARKETING PRIVATE LIMITED	U52335UP2004PTC029188
51	JATIYA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U60100UP2004PTC029190
52	OSAKA ORGANICS PRIVATE LIMITED	U15140UP2004PTC029090
53	JINNIE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U52311UP2004PTC029174
54	P.P.SAREES PRIVATE LIMITED	U17293UP2004PTC029161
55	KRISHANVANSI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED	U63022UP2004PTC029155
56	DOOT COURIER PRIVATE LIMITED	U64120UP2004PTC029152
57	CLIMB MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC029139
58	SNOLEX MARKETING AND ADVERTISING PRIVATE LIMITED	U51496UP2004PTC029142
59	DANA DRUGS PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC029129
60	LUCKNOW DATAPROMT INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72200UP2004PTC029122
61	SHREERAMCHANDRA GASES PRIVATE LIMITED	U40200UP2004PTC029115
62	FOSSILS SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200UP2004PTC029120
63	ZAFAR ALI COAL SUPPLY COMPANY PRIVATE LIMITED	U10102UP2004PTC029111
64	REMORA REMEDIES PRIVATE LIMITED	U52311UP2004PTC029102
65	RAGHAV MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC029088
66	SHREE JEE BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45202UP2004PTC029074
67	SHANGRILA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74210UP2004PTC029062

1	2	3
68	RIPL INFOTECH PRIVATE LIMITED	U32109UP2004PTC029065
69	WELTASK PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U51697UP2004PTC029060
70	LUCKY TEA PRIVATE LIMITED	U51226UP2004PTC029050
71	JOYA STEELS PRIVATE LIMITED	U27104UP2004PTC029045
72	HOTEL UTTAM CLUB HOUSE PRIVATE LIMITED	U55101UP2004PTC029041
73	SHIKSHA EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED	U80211UP2004PTC029013
74	HIMANJAN MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC02902
75	QUICKWELL REMEDIES PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC029027
76	METAPHOR ADVERTISING PRIVATE LIMITED	U74300UP2004PTC029004
77	ANTNET CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140UP2004PTC028976
78	TITAN REMEDIES PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028980
79	HAUST CHEMICALS MARKETING PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028986
80	SHANDILYA SALES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028973
81	ENJOY LIFE MERCHANTILE PRIVATE LIMITED	U51505UP2004PTC028966
82	SHAHNAZ HUSAIN SALES PRIVATE LIMITED	U51399UP2004PTC028953
83	GULISTAN HOUSING PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028955
84	SHAHNAZ HUSAIN (INDIA) HERBAL GOODS PRIVATE LIMITED	U24239UP2004PTC028959
85	SPS MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED	U51399UP2004PTC028946
86	V3 EXIM OVERSEAS PRIVATE LIMITED	U18101UP2004PTC028920
87	MAHARAJA HARISHCHANDRA CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028919
88	N.K. TRANSFARMER PRIVATE LIMITED	U31102UP2004PTC028895
89	RASHI COLONISERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028898
90	BHOLENATH SALES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028899
91	ARMAN BABA ENTERTAINMENT AND MANAGEMENT CO. PRIVATE LIMITED	U92132UP2004PTC028900
92	DAWN INDIA SECURITIES LIMITED	U67120UP1996PLC020078

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of companies Act 1956 and of the following Companies

Chandigarh, the 30th May 2014

No. ROC/560(5) FTE/2013--Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:--

S. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	24321	Drish Infowave Limited
2.	33208	Vision Residency Private Limited

1	2	3
3.	35738	Mast Kalandar Entertainment Private Limited
4.	33169	Crown Infra Builders Private Limited
5.	16109	Aggarwal Rice Exports And Investments Private Limited
6.	32749	Inf Outsourcing Private Limited
7.	20409	Crown Cables Private Limited
8.	35235	Padmawati Solvex Private Limited
9.	33283	Starshishya Education Consultants Private Limited
10.	36360	Turbo Power Ventures Private Limited
11.	32604	Operand Technologies Private Limited
12.	32129	Good Times Edupro Consulting Private Limited
13.	33232	Proton Educational Services Private Limited
14.	34057	Sevenseas Imports Private Limited
15.	33937	Seven Star Land Promoters Private Limited
16.	16762	Mutual Portfolio Services Limited
17.	33863	Mr. Brain Master Skilled Services Private Limited
18.	12570	Niva Chem Private Limited
19.	32739	Lex Commerci Private Limited
20.	34061	Guruds Real World Private Limited
21.	26533	Nidhaan Overseas Private Limited
22.	08026	Chandra Mercantile Private Limited
23.	32627	A K Jewels Private Limited
24.	13279	Changothia Motors Private Limited
25.	33902	Gautam Dairies Private Limited
26.	33892	Gautam Dairy & Foods Private Limited
27.	32120	Shoubhit Traders Private Limited
28.	33643	Chandigarh Mechanical Technologies Private Limited
29.	30458	RPL Infrastructure Development Private Limited
30.	34122	Noor Repellents Private Limited
31.	32461	Lally Performance Cars Private Limited
32.	30964	Emgreen Sites Private Limited
33.	28744	Horizon Institute of Competitions Private Limited
34.	34421	Mega Millions Lottery Distributors India Private Limited
35.	30568	Indus Sourcing Private Limited
36.	28332	G R Softech Private Limited
37.	31836	Logico Packaging Private Limited
38.	29097	Phinest Software Private Limited
39.	34158	Divinity Infotech Private Limited
40.	11247	Continental Travel Service Jalandhar Private Limited

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the Matter of Limited Liability Partnership Act 2008 and of following LLPs
Kolkata, the 27th May 2014

No. ROC/WB/ LLP-75/2014—Notice is hereby given pursuant to under section 75 of the Limited Liability Partnership Act 2008 read with Rule 37(3) of the LLP Rule, 2009 that the names of the following 2 LLP have on this day been struck off from the Register and the LLP are dissolved :--

Sl. No.	LLPIN	Name of the LLP
1	AAA-6829	TRIPATHIS BOOK RENTAL LLP
2	AAA-1778	NATURAL EXOTIC PRODUCTS LLP

PRANAY CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of companies Act, 1956 and of the following Companies
Cuttack-753014, the 20th May 2014

No. ROC/Sec. 560(5)/2014/ 570--Notice is hereby given pursuant to Sub- section (5) of the section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved:--

Sl No.	No. of comp	Name of Company
1	2	3
01	15-13351	ANUSHREE SERVICES & CONCEPTS PRIVATE LIMITED
02	15-13356	SBG INFRATECH SERVICES (INDIA) LIMITED
03	15-13357	ENTER10 LIVE VENTURES PRIVATE LIMITED
04	15-13359	MAHIMA ALEKHA INFRATECH PRIVATE LIMITED
05	15-13370	NILACHAKRA DREAMHOME SOLUTION PRIVATE LIMITED
06	15-13371	SUBHASHREE DESIGNERS AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
07	15-13374	SHREE GANESH HABITATS PRIVATE LIMITED
08	15-13375	SAIMAHAVIR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
09	15-13377	EXCELLENCE E-SERVICES PRIVATE LIMITED
10	15-13384	MAA BIMALA BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
11	15-13385	JSB INFORMAATION SYSTEM PRIVATE LIMITED
12	15-13388	SAI SARVODAYA MULTI PRODUCT MARKETING PRIVATE LIMITED
13	15-13392	PSB CUSTOMER SERVICES PRIVATE LIMITED
14	15-13393	RANJIT AGRO INDIA PRIVATE LIMITED
15	15-13397	GANJAM FOODS PRIVATE LIMITED
16	15-13399	SIDHIBINAYAK TECHNO INFRA PRIVATE LIMITED
17	15-13400	SAI SOUMYA AGRO (INDIA) LIMITED
18	15-13403	MONALI REAL ESTATE AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
19	15-13405	JAMBU EXPORTS PRIVATE LIMITED
20	15-13410	SARTHAK ADVANCE INFRA PRIVATE LIMITED

1	2	3
21	15-13413	STEELEX INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
22	15-13417	RIDHICON BUILDERS PRIVATE LIMITED
23	15-13418	SILICON CONSUMER CARE PRIVATE LIMITED
24	15-13421	FUTURE FARMING REALCON LIMITED
25	15-13422	GRUHAM INFRA PRIVATE LIMITED
26	15-13424	HAREKRISHNA MULTI PROJECTWORKS PRIVATE LIMITED
27	15-13427	EPITYCHIA LEARNING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
28	15-13428	FUTURELIFE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
29	15-13429	JENA MEDIA PRIVATE LIMITED
30	15-13432	D. V. PROCESSORS AND INFRA PRIVATE LIMITED
31	15-13433	MADANI LOGISTICS PRIVATE LIMITED
32	15-13434	BASUMATI SEEDS AND AGRI PRIVATE LIMITED
33	15-13436	P9V WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
34	15-13438	EMERGE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
35	15-13442	A S R FERRO ALLOYS PRIVATE LIMITED
36	15-13447	AFTERLIFE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
37	15-13448	INDO-US HOSPITAL PRIVATE LIMITED
38	15-13451	CANDID INNOVATIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
39	15-13455	P K BANKA & CO PRIVATE LIMITED
40	15-13456	RISING BIO-TECH PRIVATE LIMITED
41	15-13458	IMPERIA COSMO PROJECTS PRIVATE LIMITED
42	15-13465	G FOCUS INFRA PROPERTY PRIVATE LIMITED
43	15-13468	HOARD PROTEGE LIMITED
44	15-13470	MAA CHANDI BUILDTECH PRIVATE LIMITED
45	15-13472	CARE 'N' CAREER HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
46	15-13473	BULL'S BULLION TRADEMART PRIVATE LIMITED
47	15-13474	SAARA INDIA RETAILS LIMITED
48	15-13481	Jai Saijagannath Developer & Builders Private Limited
49	15-13482	SWADESHI AGRO (INDIA) PRIVATE LIMITED
50	15-13484	F S S MARKETING LIMITED
51	15-13486	CONFIDE TELESOFT PRIVATE LIMITED
52	15-13497	SAGARIKA INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED
53	15-13499	AVINTA VENTURES PRIVATE LIMITED
54	15-13507	SAISAMPARK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
55	15-13509	MOTHER PROGRESS INFRATECH PRIVATE LIMITED
56	15-13510	K. K. PARIVAR (INDIA) PRIVATE LIMITED
57	15-13515	INVESTA INFRA PRIVATE LIMITED

1	2	3
58	15-13521	SHREE LAXMI GANESH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
59	15-13523	OM SAI VISION MARKETING PRIVATE LIMITED
60	15-13527	HAPPY COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
61	15-13529	HINDUSTAN AGRO PARIWAR LIMITED
62	15-13530	HONEYBEE PROJECTS PRIVATE LIMITED
63	15-13532	SRAC CONSULTING (INDIA) PRIVATE LIMITED
64	15-13534	APPLE MANAGEMENT AND PROPERTIES PRIVATE LIMITED
65	15-13535	SWASTIK TRANSYSTEM PRIVATE LIMITED
66	15-13542	FUTURECARE INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED
67	15-13547	GURUDEV INFRACON PRIVATE LIMITED
68	15-13555	SAI ASHIANA PROJECTS PRIVATE LIMITED
69	15-13556	VASSTEK (INDIA) INFOLAB PRIVATE LIMITED
70	15-13559	SHREE HARA BIOTECH PRIVATE LIMITED
71	15-13563	CRESSET INFOTECH LIMITED
72	15-13565	AFFY INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
73	15-13569	ANMOL BAIBHAV DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
74	15-13570	HOMAGE CONSULTANCY & SERVICES PRIVATE LIMITED
75	15-13576	RIMEX SERVICE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
76	15-13583	ITALIA SPORTS PRIVATE LIMITED
77	15-13587	BIO-SCIENCE HEALTHCARE LIMITED
78	15-13592	SHREE SIRIDISAI GLOBAL LOGISTICS PRIVATE LIMITED

C. K. DAS
Asstt. Registrar of Companies
ODISHA

In the matter of companies Act 1956 and of following Companies

Cuttack-753014, the 28th May 2014

No. ROC/Sec. 560(5)/2014/ 616--Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of the section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved:--

Sl. No.	No. of comp	Name of company
1	2	3
01	15-13604	SAI KRISHNA ROAD CARRIERS PRIVATE LIMITED
02	15-13607	AVATAAR EVENTS PRIVATE LIMITED
03	15-13608	SAI VARSHA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
04	15-13613	AFFLUENCE MULTITRADE PRIVATE LIMITED
05	15-13617	EAST INDIA COMBINES PRIVATE LIMITED

1	2	3
06	15-13619	SAFEREST INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
07	15-13624	SWARNA TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
08	15-13633	JITA FOODS INDIA PRIVATE LIMITED
09	15-13636	SHREE MOVERS AND TRADERS PRIVATE LIMITED
10	15-13641	SUSHREE INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
11	15-13642	BISHAL METROPOLIS INDIA PRIVATE LIMITED
12	15-13644	SAGARIKA LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
13	15-13645	GREENX VILLAS & COTTAGES PRIVATE LIMITED
14	15-13648	PANCHASAKHA KRISHI NIRMAN PRIVATE LIMITED
15	15-13651	7-EYES INFRA SERVICES PRIVATE LIMITED
16	15-13655	INTEGRITY INFOTECH PRIVATE LIMITED
17	15-13658	SPECIMENS MINERALS PRIVATE LIMITED
18	15-13659	SRISAI INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED
19	15-13662	SMILE MEDIA & EDUCATION PRIVATE LIMITED
20	15-13673	SAI ASHISH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
21	15-13675	INTEROCCEAN CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
22	15-13679	TRADETECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
23	15-13681	KALYAN HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
24	15-13683	BIBHUKALYAN INFRA PROPERTY LIMITED
25	15-13688	SAGACIOUS RESIPROCATATE PRIVATE LIMITED
26	15-13693	PRATAP REALCON PRIVATE LIMITED
27	15-13696	ABSEK RESOURCES LIMITED
28	15-13697	INSTANT NEWS & ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
29	15-13699	ADHEEP AGRIFO INFRA PRIVATE LIMITED
30	15-13700	ABHINAB INTERNET INDIA PRIVATE LIMITED
31	15-13702	SEVEN SOFTTRON SERVICES PRIVATE LIMITED
32	15-13703	SHIKIRITI ESTATES PRIVATE LIMITED
33	15-13704	EAST HOPE CONSTRUCTIONS LIMITED
34	15-13713	JALARAM MINERAL PRIVATE LIMITED
35	15-13724	GUGULU INFRA PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED
36	15-13725	DHANVI ESTATES LIMITED
37	15-13729	SNEHALATA INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
38	15-13730	AVIAN e-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
39	15-13741	SAI PRAVA INFRASTRUCTURE LIMITED
40	15-13742	SWARG INFRA (INDIA) LIMITED
41	15-13743	ARIOSIS LABS PRIVATE LIMITED
42	15-13745	SAI PRASAD INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

1	2	3
43	15-13752	CITY SAMRIDHI PRIVATE LIMITED
44	15-13754	JS INFRAVENTURE PRIVATE LIMITED
45	15-13755	GREENPARK INN PRIVATE LIMITED
46	15-13756	ARNNAPURNA ASSETS & MARKETING PRIVATE LIMITED
47	15-13757	KAMAKHYA INFRA VENTURES PRIVATE LIMITED
48	15-13758	PK INFRA CREATORS PRIVATE LIMITED
49	15-13761	S S MAINTAINANCE & ENGINEERING PRIVATE LIMITED
50	15-13763	UNICONCEPT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
51	15-13764	CHANDRA SEKHAR BIO TECH PRIVATE LIMITED
52	15-13766	SYSTEMATICS BEVERAGE PRIVATE LIMITED
53	15-13767	INCA CARD PLUS PRIVATE LIMITED
54	15-13770	M MANJAR AGROTECH PRIVATE LIMITED
55	15-13771	ASBN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
56	15-13774	LOGIC PEOPLE MARKETING PRIVATE LIMITED
57	15-13783	ZEN GRAPHICS PRIVATE LIMITED
58	15-13784	SUPER DREAM CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
59	15-13786	DION IMPEX PRIVATE LIMITED
60	15-13787	SS TECHNO INFRA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
61	15-13788	AADYANTA PROPERTIES LIMITED
62	15-13789	LSR ESTATE & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
63	15-13791	SAFEZONE MARKETING PRIVATE LIMITED
64	15-13794	GOODLAND HAPPYHOMES INFRA LIMITED
65	15-13795	NILACHAKRA PROPERTIES LIMITED
66	15-13797	SANKATA MOCHAN HOME CREATION PRIVATE LIMITED
67	15-13798	CLEMENT BIOLOGICALS PRIVATE LIMITED

B MISHRA
ROC-cum-OL
ODISHA

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in